

#### **NIIT Limited**

85, Sector-32, Institutional Gurgaon 122001, India Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333

Email: info@niit.com

Registered Office:

8, Balaji Estate, First Floor Guru Ravi das Marg, Kalkaji New Delhi 110 019, India

CIN: L74899DL1981PLC015865

www.niit.com

July 7, 2021

The Manager BSE Limited

Corporate Relationship Department, 1<sup>st</sup> Floor, New Trading Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 The Manager
National Stock Exchange of India Ltd

Listing Department Exchange Plaza 5<sup>th</sup> Floor, Plot no C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (E),Mumbai – 400 051

Subject: <u>Submission of Copies of newspaper advertisement regarding intimation of 38<sup>th</sup></u>
Annual General Meeting to be held on August 5, 2021

Scrip Code: BSE - 500304; NSE - NIITLTD

Dear Sir.

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, enclosed herewith please find copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Financial Express (English Language) and Jansatta ((Hindi Regional Language) on July 6, 2021 regarding intimation of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on August 5, 2021 through VC / OAVM.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly, For **NIIT Limited** 

Deepak Bansal Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

कब्जा सूचना (अचल संपात्त क लिए)

जबिक अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इंडिया, राजौरी गार्डन शाखा** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम

2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 08.04.2021 को एक माँग नोटिस जारी

करके ऋणी **श्रीमती अनु अग्रवाल, श्री अरुण अग्रवाल और श्री संजीव अग्रवाल** को नोटिस ग वर्णित बकाया राशि **रू. 12,82,899.02 / – (रूपये बारह लाख बयासी हजार आठ सौ** 

**निन्यानबे और दो पैसे)** दिनांक 21.03.2021 से आगे के ब्याज सहित का भूगतान उक्त नोटिस

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना र्द

जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत, सुरक्षा हित

प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पिठत, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग

ऋणी / गारन्टर को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है

कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपत्ति में किया गया कोई भी

लेन–देन **बैंक ऑफ इंडिया, राजौरी गार्डन शाखा** के बकाया राशि **रू.12,82,899.02** / -

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए

अचल संपत्तियों / चल संपत्तियों का विवरण

श्रीमती अनु अग्रवाल के नाम पर मकान नंबर 23 ग्राउंड फ्लोर, शिवाजी एन्क्लेव, नः

दिल्ली 110027 और हाउस नंबर 57. बेसमेंट. शिवाजी एन्क्लेव, नई दिल्ली 110027

सहित संपत्ति का सभी भाग व अंश जिसमें उप-जिला पश्चिमी दिल्ली और जिल

करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक **01 जुलाई, 2021** को ले लिया है।

मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा गया था।

उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(हाउस नंबर 57)

प्लॉट नंबर 58

प्लॉट नंबर 56

प्लॉट नंबर 73

100 फूट चौड़ी सड़क

राजौरी गार्डन शाखा ए-2/48, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली -110027

फोनः 25454689, 25191913 ईमेलः RajouriGarden.Newdelhi@bankofindia.co.ii

(हाउस नंबर 23);

प्लॉट नंबर 24

प्लॉट नंबर 22

प्लॉट नंबर 48

प्राधिकृत अधिकारी,

सडक

(बैंक ऑफ इंडियाः राजौरी गार्डन शाखा)

नई दिल्ली, 5 जुलाई (भाषा)।

देहरादून, 5 जुलाई (भाषा)।

अधिक सीटें लाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी कई करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई है।

केंद्रीय एजंसी ने एक बयान में कहा कि कमार को रविवार को यहां से गिरफ्तार किया गया और बाद में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी से पहले एजंसी ने दिल्ली और हरियाणा में कम से

उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक

ने दावा किया कि 2022 में होने वाले

विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी युवा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 60 से

रविवार शाम शपथ लेने के बाद उनके साथ

विकास कार्यों को लेकर लंबी मंत्रणा करने के

दौरान प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि

भाजपा ने साढ़े चार साल में विकास कार्यों के

बृते यह साबित किया है कि भाजपा विकास के

इंदौर (मध्य प्रदेश), 5 जुलाई (भाषा)।

आया है।

का रहने वाला है।

पत्नी से दूर रहने को बनाई

कोरोना संक्रमण की जाली

रिपोर्ट, मामला दर्ज

निजी समस्याओं के चलते 26 वर्षीय व्यक्ति द्वारा अपनी

इंदौर के छोटी ग्वालटोली पुलिस थाने के प्रभारी संजय शुक्ला ने

नवविवाहिता पत्नी से कथित तौर पर दूर रहने के लिए खुद के कोरोना

से संक्रमित होने की जाली रिपोर्ट तैयार किए जाने का मामला सामने

सोमवार को बताया कि इस जालसाजी के खुलासे पर शहर की एक निजी

प्रयोगशाला की शिकायत पर 26 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड

विधान की धारा 469 (किसी फर्म की ख्याति को नुकसान पहुंचाने के

इरादे से जालसाजी) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत आपराधिक

मामला हाल ही में दर्ज किया गया है। यह व्यक्ति नजदीकी कस्बे मह

समस्याओं के चलते उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी से दूरी बना रखी

थी। इस बात को लेकर पति-पत्नी में अनबन भी चल रही थी।' शुक्ला

ने बताया कि आरोपी ने इंदौर की एक निजी प्रयोगशाला की वेबसाइट

से अन्य व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट डाउनलोड की और

अपनी पत्नी तथा पिता को भेज दी और किसी को बिना बताए घर से

गायब हो गया। शुक्ला ने कहा, 'आरोपी की जाली रिपोर्ट मिलते ही

उसके परिजनों का माथा ठनका क्योंकि उसे कोविड-19 के कोई लक्षण

नहीं थे। बाद में परिजनों द्वारा निजी प्रयोगशाला से जानकारी लिए जाने

पर इस व्यक्ति की जालसाजी का खुलासा हुआ।' थाना प्रभारी ने बताया

कि मामले में विस्तृत छानबीन जारी है और आरोपी को ढुंढे जाने के बाद

उसे नोटिस दिया गया है कि जांच में उसकी जब भी जरूरत होगी, वह

रोज ईंधन के दाम बढ़ा नागरिकों को

प्रताड़ित करना बंद करे केंद्र : कांग्रेस

सोमवार को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रतिलीटर की बढ़ोतरी समेत

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट का

फायदा केंद्र सरकार द्वारा पेटोलियम पर लगातार अतिरिक्त उत्पाद

उन्होंने एक मलयालम समाचार चैनल पर कहा, 'केंद्र सरकार द्वारा

पेट्रोलियम पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में लगातार बढ़ोतरी के कारण

कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट का फायदा यहां

उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है।' सतीशन ने कहा, 'केंद्र सरकार

को लोगों को इस तरह प्रताड़ित करना बंद करना चाहिए।' कांग्रेस

शुल्क बढ़ाए जाने से लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

ईंधन के रोजाना बढ़ रहे दामों के बीच केरल विधानसभा में विपक्ष के

नेता वीडी सतीशन ने केंद्र से कहा कि इस तरीके से वह नागरिकों को

उन्होंने बताया कि आरोपी ने यह जाली रिपोर्ट वॉट्सऐप के जरिए

जालसाजी के जरिए इसमें अपना नाम लिख दिया।

पलिस के सामने हाजिर हो जाएगा।

तिरुवनंतपुरम, ५ जुलाई (भाषा)।

प्रताडित न करे।

उन्होंने बताया, 'आरोपी की फरवरी में शादी में हुई थी। लेकिन निजी

मुख्यमंत्री धामी और उनके मंत्रिमंडल के

*गिरफ्तारी* से पहले एजंसी ने दिल्ली और हरियाणा में कम से कम नौ परिसरों पर छापे मारे थे।

कम नौ परिसरों पर छापे मारे थे।

बयान के मताबिक, 'तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं।' ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए की आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया था। सीबीआइ ने इस साल के शुरू में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के एक संघ के साथ 3,269 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए शक्ति भोग फूड्स

'युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जीतेंगे 60 से ज्यादा सीटें'

प्रति समर्पित पार्टी है और उसकी सोच

सकारात्मक है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और

पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार

गौतम तथा संगठन के अन्य नेताओं की

मौजूदगी में हुई बैठक में उन्होंने कहा, 'प्रदेश में

संवैधानिक संकट के चलते नेतृत्व परिवर्तन

करना पड़ा लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जहां

इसका विकास कार्यों पर कोई फर्क नहीं पडता।

प्रदेश में विकास कार्य निर्बाध गति से चल रहे

हैं।' उधमसिंह नगर जिले के खटीमा से दो बार

के विधायक 45 वर्षीय धामी ने रविवार को ही

प्रदेश के 11 वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

है। उन्हें प्रदेश की कमान ऐसे समय में मिली है

लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एसबीआइ ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

एसबीआइ के अनुसार निदेशकों ने लोगों के पैसे को हडपने के लिए कथित तौर पर खातों में हेराफेरी की और जाली दस्तावेज तैयार किए। बैंक ने कहा था कि 24 साल पुरानी कंपनी की 2008 में कारोबार वृद्धि 1411 करोड़ रुपए थी जो 2014 में बढकर 6,000 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी आटा, गेंहू, चावल, बिस्किट आदि बनाने व बेचने के व्यापार में है।

ईडी ने कहा कि उनपर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों द्वारा संदिग्ध खरीद-फरोख्त के जरिए कर्ज खाते के पैसे को हेराफेरी करके बाहर भेज दिया।

जब विधानसभा चुनावों में केवल कुछ माह का

में उत्साह है। युवा और ऊर्जावान नेतृत्व से जिस

तरह की उम्मीदें हैं उससे भाजपा को 2017 से

भी अधिक बहमत मिलेगा।' वर्ष 2017 में

विधानसभा चुनावों में भाजपा को 70 में से 57

सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस संबंध में

हाल में प्रदेश की सल्ट विधानसभा सीट पर हुए

उपचुनाव का जिक्र करते हुए कौशिक ने कहा

कि सल्ट में जनता ने जता दिया है कि उसे

भाजपा पर भरोसा है और यह 2022 में होने

वाले फाइनल का सेमीफाइनल साबित होगा ।

कौशिक ने कहा, 'जनता और कार्यकर्ताओं

समय ही शेष है ।

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट - ई, मयुर विहार, फेज-।।, दिल्ली-110091

ईमेलः cs8075@pnb.co.in, फोन नं. 011-22779758, 22785289

कब्जा सूचना प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (आस्ति** 

वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट—ई, मयूर विहार फेज—।।, दिल्ली—110091

का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के

साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार **सुश्री पूनम त्यागी** 

(कर्जदार) को मांग नोटिस दिनांक 05.12.2020 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू.

46.49.798.79 (रु. छिहत्तर लाख उनचास हजार सात सौ अट्टान्वे और पैसे उनासी मात्र) और

**साथ में भविष्य का ब्याज, खर्चें और अन्य प्रभार इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि

कर्जदार / गांरटर्स उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा

कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि के अधोहरताक्षरी ने सुरक्षा हित

(प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के

तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 05.07.2021 को कब्जा ले

उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8). वं

प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत उपलब्ध समय सीमा की ओर

उघारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि

वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन—देन **पंजाब** 

नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम

तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-।।, दिल्ली-110091 के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू

46,49,798.79 (रु. छिहत्तर लाख उनचास हजार सात सौ अट्टान्वे और पैसे उनासी मात्र) और

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति रिहायशी पलैट नं. 056, भूतल, बेटिना

ब्लॉक, महागून मॉसकोट में एचआईजी—1 टाईप, प्लॉट नं. जीएच—05 पर निर्मित, सेक्टर—11

डूंडाहेड़ा, गाजियाबाद तहसील और जिला, गाजियाबाद, सूपर एरिया 1550 वर्ग फुट में स्थित

हैं। (अर्थात 144.00 वर्ग मीटर) और कवर्ड एरिया 1292 वर्ग फीट (अर्थात 120.03 वर्ग मीटर) और

लॉन एरिया 266.00 वर्ग फीट (अर्थात 24.71 वर्ग मीटर), चौहदी : उत्तर में – प्लॉट नं.

जीएच–05ए, दक्षिण में – 45मी चौड़ा रोड, पूरब में – 45मी, चौड़ा रोड, पश्चिम में – जी–2 ग्रीन

पंजाब मेशनल बेंक 🕒 punjab national bank ...the name you can BANK upon

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट – ई, मयूर विहार, फेज-।।, दिल्ली-110091

ईमेल: cs8075@pnb.co.in, फोन नं. 011-22779758, 22785289

कब्जा सूचना प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूनर्गंठन एवं प्रतिभृति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (आस्ति** 

वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-।।, दिल्ली-110091

का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के

साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार मैसर्स लूबिया

ओवरसीज प्रोप श्री गौरव चौधरी (उधारकर्ता) और श्री देश पाल सिंह पुत्र श्री कालू राम (गारंटर)

को मांग नोटिस दिनांक 10.11.2020 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू.

49,87,312.91 (रु. उनचास लाख सत्तासी हजार तीन सौ बारह और पैसे इक्यान्वे मात्र) और

**साथ में भविष्य का ब्याज, खर्चें और अन्य प्रभार इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि

कर्जदार / गांरटर्स उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वार

कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि के अधोहस्ताक्षरी ने सरक्षा हित

(प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) वं

तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 03.07.2021 को कब्जा ले

उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के

प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर

उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि

ो निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन—देन **पंजाब** 

नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम

तल, पॉकेट-ई, मयुर विहार फेज-।।, दिल्ली-110091 के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू

49,87,312.91 और साथ में भविष्य का ब्याज, खर्चें और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. ६ / 544, क्षेत्रफल 150.

00 वर्ग गज, वार्ड नं. 6, पैटी चौधरन नई बस्ती, पोस्ट एवं परगना बारौत, तहसील बागपत, जिला

मेरठ (यू.पी.) में स्थित, यह सम्पत्ति श्री देश पाल सिंह के नाम पर है सब रजिस्ट्रार बागपत में

वीहदी : प्रथम हिस्सा (क्षेत्रफल 90 गज), उत्तर में – श्री अली हसन का मकान, पश्चिम में -

पश्चिम में – श्री तेज सिंह का मकान, दक्षिण – श्री भूरू का मकान, पुरव में – श्रीचंद का मकान

चौहदी : द्वितीय हिस्सा (क्षेत्रफल 30 गज), उत्तर में – श्री अली हसन का मकान, पश्चिम में -

चौहदी : तुतीय हिस्सा (क्षेत्रफल 30 गज), उत्तर में – श्री अली हसन का मकान, पश्चिम में –

दरवाजा और आम रास्ता, दक्षिण में – श्री तेज सिंह का मकान, पूरब में – श्री तेज सिंह का

पंजीकृत, बही नं. 1, खंड नं. 74, पेज नं. 23 से 40, क्र.सं. 6647 दिनांक 30.10.2091

ततीय भाग, दक्षिण में - श्री तेज सिंह का मकान, पूरब में - प्रथम भाग

प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

से 60 दिनों के अन्दर भगतान करने को कहा गया था।

भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा

दिनांक : 05.07.2021, स्थानः दिल्ली

से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था।

## छात्र को धमकाने पर माकपा विधायक के खिलाफ शिकायत

तिरुवनंतपुरम, ५ जुलाई (भाषा)।

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक ने टेलीफोन कॉल के दौरान 10वीं के छात्र के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक एवं अभिनेता एम मुकेश के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) में सोमवार को शिकायत दर्ज कराई।

अपने शिकायती पत्र में, जेएस अखिल ने लडके से बात करने के अभिनेता के तरीके को 'अपमानजनक' बताया और यह भी आरोप लगाया कि कोल्ल विधायक ने बच्चे को 'अपमानित' किया और 'धमकाया'। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेशे से सिने कलाकार और विधायक जैसे उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता समाज के प्रति है, वह किशोर की समस्या का समाधान करने में विफल रहा।' मुकेश और विद्यार्थी के बीच फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग के मुताबिक, विधायक, अपने जिले के विधायक के बजाय उन्हें फोन करने के लिए पालक्कड़ के लंडके पर चिल्लाए। बाद में, मुकेश ने एक वीडियो में दावा किया कि फोन कॉल उन्हें 'परेशान करने और ऐसी स्थिति में फंसाने' के लिए 'राजनीति से प्रेरित योजना' का हिस्सा थी जिससे कि उन्हें गुस्सा आ जाए। मुकेश ने मीडिया को बताया कि वह जब से कोल्लम से पुनः निर्वाचित हुए हैं, उन्हें हर दिन अजीबो-गरीब मुद्दों जैसे ट्रेन क्यों देर से चल रही हैं, बिजली आपूर्ति कब होगी आदि को लेकर फोन आते हैं और आरोप लगाया कि यह सब उन्हें परेशान करने की 'बड़ी साजिश' का हिस्सा है। वायरल हुए ऑडियो क्लिप में छात्र को कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने मदद के लिए फोन किया है और उसे अपने दोस्त से नंबर मिला

# पजाब नेशनल बैंक

General Service Administration Department, Circle Office, Aligarh, Email id: coali gad@pnb.co.in Sai Vihar, Opp. Madan Palace, Talaspur Kalan, Ramghat Road, Aligarh-202002

समस्त सम्मानित ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16.08.2021 से हमारी शाखा कौड़ियागंज (072100) का समामेलन शाखा कौड़ियागंज

(e-OBC) (028810) में होना प्रस्तावित है। सम्मानित ग्राहकों को पूर्व में कौड़ियागंज पीएनबी (072100) की शाखा में प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं भविष्य में शाखा (e-OBC) पीएनबी कौड़ियागंज (028810) में प्रदान की जाएगी। यदि लॉकर में कोई टूट फुट का सामान हो तो सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध है कि दिनांक 13.08.2021 सायं 4 बजे तक निकाल लें अन्यथा सामान की टूट फुट के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

दिनाँक 05.07.2021

मण्डल प्रमख



कंपनी के शेयरधारकों के ध्यानार्थ सूचना

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि

एरकॉर्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 75वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियोविज्अल साधनों(''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम, 2015 सामान्य परिपत्र संख्या के साथ पठित 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या २०/२०२० दिनांक ५ मई, २०२० और सामान्य परिपन्न संख्या 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और अन्य लाग परिपन्न कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा व्यापार के लेन-देन करने के लिए जारी किये गए हैं, जैसा कि एजीएम नोटिस में वर्णित है।

सदस्य https://emeetings.kfintech.com पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यो को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना

अधिनियम की धारा 91 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत भी नोटिस दिया गया है, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर ("आरओएम") और शेयर ट्रांसफरबुक्स 17 जुलाई, 2021 से 27 जुलाई, 2021 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगे। लामांश के

भुगतान के प्रयोजन के लिए निम्नानुसार है: (ए) सामान्य अंतिम लाभांश / 50% प्रति शेयर अंकित मूल्य रु.

10 / - प्रत्येक (अर्थात रु. 5.00 प्रति शेयर) (बी) अतिरिक्त विशेष एक मुश्त प्लेटिनम जुबली (75वां वर्ष) लामांश / 25% प्रति शेयर अंकित मूल्य के रुपये। 10 / – प्रत्येक (अर्थात रु. 2.50 प्रति शेयर)

(सी) कल लामांश / 75% प्रति शेयर यानी रु. 7.50 प्रति

इक्विटी शेयर एस्कॉर्टसबेनिफिट एंड वेलफेयर टस्ट (टेजरी शेयर) द्वारा धारित शेयरों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए घोषित रिकॉर्ड तिथि पर सभी बकाया शेयरों पर देय / रु. 2.50 प्रति शेयर (25%), यदि उक्त एजीएम में घोषित किया

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना ("नोटिस") और वार्षिक रिथरता रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों और निदेशको की रिपोर्ट शामिल हैं 5 जुलाई, 2021 को कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक और स्थिरता रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां कंपनी की वेबसाइट www.escortsgroup.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केएफआईएन" या "आरटीए") की वेबसाइट

https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम ("इंस्टापोल") के दौरान रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के लिए निर्देश: कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर

रही है। सदस्य नीचे दी गई तिथियों ("रिमोट ई-वोटिंग") पर KFIN की इलेक्टॉनिक

वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सविधा एजीएम (''इंस्टा पोल'') में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है. वे इंस्टा पोल के माध्यम से

एजीएम में मतदान कर सकेंगे। ई—वोटिंग से संबंधित युजर आईडी और पासवर्ड सहित सुचना और निर्देश ई–मेल के माध्यम से सदस्यों को भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में

भाग लेने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए। डीमैटीरियलाइण्ड मोड, फिजिकलमोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल द्वारा वोटिंग का तरीका और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, नोटिस में प्रदान किया गया है जो कंपनी की वेबसाइट www.escortsgroup.com और स्टॉकएक्सचेंजों की वेबसाइट

www.bseindia.com और <u>www.nseindia.com</u> पर, और KFIN की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई—वोटिंग विवरण इस प्रकार हैं: रिमोट ई-वोटिंग की 20 जुलाई, 2021

कट-ऑफ तिथि

2021 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। तत्पश्चात रिमोट ई-बोटिंग को केएफआईएन द्वारा मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि | रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 24 जुलाई,

रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि, यानी मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा या एजीएम के जरिये इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान करने का लाम लेने का हकदार होगा।

वह व्यक्ति, जिसका नाम त्व्ड में दर्ज है या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी मालिकों के

उन ईमेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य https://ris.kfintech.com/clientservices. mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके या फोलियो नंबर के विवरण के साथ आरटीए को लिखकर और स्वयं को संलग्न करके अपनी ई–मेल आईडी को पंजीकृत / अपडेट कर सकते हैं। पैन कार्ड की सत्यापित प्रति einward.ris@Kfintech.com पर; डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट "डीपी" के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपबेट करना आवश्यक है।

उचित सत्यापन के बाद, कंपनी / केएफआईएन उनके लॉगिन क्रेडेंशियल उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज देगा।

कोई भी व्यक्ति जो नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह युजर आईडी और पासवर्ड को नोटिस में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है, जो कंपनी, स्टॉक एक्सबेंज और केएफआईएन पर उपलब्ध है। वेबसाइट। ऐसे सदस्य कंपनी द्वारा नोटिस में निर्दिष्ट तरीके से ई—वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य https://evoting.kfintech.com (KFIN वेबसाइट) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध "सहायता" और "एफएक्यू" अनुभागा / ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या केफिन टेक्नोंलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद — 500 032, तेलंगाना या evoting@kfintech.com श्री राज कुमार काले, (यूनिट: एस्कॉर्ट्स लिमिटेड) से संपर्क करें। या फोन नं. 040-67162222 या केएफआईएन के टोल फ्री नंबर 1800-3454-001पर कॉल करें

एस्कॉर्टस लिमिटेड CIN: L74899HR1944PLC039088 पंजीकृत कार्यालयः 15/5, मधुरा रोड, फरीदाबाद-121003, हरियाण फोनः 0129-2250222 ई—मेलः corpsl@escorts.co.in वेबसाइटः www.escortsgroup.com दिनांकः 5 जुलाई, 2021

एसकॉर्टस लिमिटेड के लिए एसडी/-सत्येंद्र चीहान NIIT

स्थानः दिल्ली

दिल्ली ।

चौहददी:

उत्तर में

पूर्व में

दिनांकः 01.07.2020

दक्षिण में

पश्चिम में

व उसपर ब्याज के अधीन होगा।

एनआईआईटी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ८, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल,

गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 CIN: L74899DL1981PLC015865 फोन नं.: +91-11- 41675000, फैक्स नं.: +91-11-41407120 वेबसाइटः www.niit.com; ईबेलः investors@niit.com 38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एनआईआईटी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरूवार, 05 अगस्त, 2021 को सायः 03.30 बजे आईएसटी में एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो पद्धति (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन लागू नियमों, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में है जिसमें कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम

उपरोक्त कथित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सचना और 31 गार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल एवं समेकित विवरणों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेजे जाएंगे जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.nit.com और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट

के आयोजन की अनुमति दी गई है। वीसी/ओएवीएम के मध्यम से शामिल होने वाले सदस्यगणों की

गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेत् की जाएगी।

कंपनी अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के उपयोग द्वारा रिमोटली अपना वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ढिमेटिरियलाइण्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यों और ऐसे सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, द्वारा रिमोटली ई-वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") की प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। विस्तृत ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट www.niit.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए इन लॉगइन क्रेडेंशियल्स का भी उपयोग किया जा सकता है। सदस्यगण जिनके ई-मेल पते कंपनी/अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड/डिपॉजिटरी प्रतिमागी(यॉ) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वह एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करके अपना लॉगइन क्रेडेंशियल्स जेनरेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयरघारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने एवं माग लेने तथा अपना बोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में माग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो

एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। कट-ऑफ तिथि अर्थात गुरुवार, 29 जुलाई, 2021 को या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई—वोटिंग के मध्यम से वोट देने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 02 अगस्त, 2021 (प्रात: 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और बुधवार, 04 अगस्त, 2021 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एक बार प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में भी ई-वोटिंग से वोट दिया जाता है तो केवल रिमोट ई-वोटिंग को ही अंतिम माना जाएगा और एजीएम में ई-वोटिंग पर

ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पस एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री नित्यानंद सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 2668), मैसर्स नित्यानंद सिंह एंड कं., कंपनी सचिव को समीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश एजीएम की सचना में दिये जाएंगे।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, डिमेट खाता / फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niit.com पर मेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्ट्रेशन गुरूवार, 29 जुलाई, 2021 तक खुला रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य के रूप में है, वहीं पंजीकरण और एजीएम में मागीदारी के

जो भी सदस्यगण कोई भी पूछताछ या जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम से न्युनतम ७ दिन पहले कंपनी के पास पर लिखें / ई-मेल investors@nit.com भेजें । कंपनी द्वारा उस

पर उपयुक्त जवाब दिया जाएगा। ई—मेल पता पंजीकरण / अपबेट कराने की प्रक्रियाः

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे शेयरधारक का नाम एवं पता, पैन/कोई अन्य पहचान एवं पते के प्रमाण की रव-सत्यापित प्रति के साथ हरताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ लिखित अनुरोध कंपनी को investors@nit.com पर भेजकर अपना ई—मेल पता अपडेट कराएं। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी

#### प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपसेट कराएं। लामांश/स्रोत पर कर कटौती (टीढीएस)/कर कटौती पर जानकारी:

निदेशक मंडल ने 4 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में रु. 2.50/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लामांश की अनुशंसा की है। अंतिम लामांश, यदि एजीएम में अनुमोदित हो जाता है तो, उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर या शेयरों के लाभार्थी स्वामियों के रूप में डिपॉजिटरी के रिकार्ड में शामिल होंगे। एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन अंतिम लाभांश, का भुगतान (लागू अनुसार स्रोत पर कर कटौती के बाद) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरघारकों को एजीएम की तिथि से 30 दिनों के मीतर भूगतान किया जाएगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण अपडेट कराया है। जिन शेयरघारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है, उनके पास लाभांश वारंट्स/ डिमांड ड्राट/चैक अपने पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा। लाभांश के भूगतान में देरी से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने ठिपोंजिटरीज (जहां शेयर ठिमेट प्रारूप में धारित हैं) और कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट – अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (जहां शेयर भौतिक प्रारूप में धारित हैं) के पास फोलियो नं., निरस्त किये गये चैक एवं पैन की प्रति की स्व-सत्यापित प्रति के साथ इस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ अपना पूरा बैंक विवरण अपडेट कराएं। शेयरघारकगण नोट करें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961

('आईटी अधिनियम') में यह अधिदेश हैं कि कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद भगतान या वितरित किया गया लामांश शेयरधारक की ओर करयोग्य होगा। इसलिए क।पनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटना होगा। लागू अनुसार उचित टीडीएस दर का निर्धारण करने में हमें सक्षम बनाने के लिए शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में नीचे विनिर्देशित अनुसार संगत दस्तावेज जमा करें।

रेजीडेंट शेयरघारकों के लिए, कर अधिनियम की घारा 194 के अंतर्गत स्रोत पर निम्नानुसार काटा वैद्य स्थायी खाता संख्या (पैन) रखने वाले 10 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसुवित अनुसार

पैन / वैद्य पैन नहीं रखने वाले शेयरघारकगण | 20 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार

यद्यपि, उन रेजीबेंट व्यक्तिगत शेयरघारकों को देय लामांश पर कर की कटौती नहीं होगी जिन्होंने वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल लामांश रू 5000 से अधिक प्राप्त नहीं किया है और उन मामलों में भी कर कटौती नहीं होगी जहां शेयरधारक ने आईटी अधिनियम में विनिर्देशित शर्तों के अधीन फार्म 15जी/फार्म 15एव (फार्म 15एव रेंजीडेंट व्यक्तिगत शेयरघारक के लिए लागू है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है) प्रदान किया है। रेजीडेंट शेयरधारक कम/शून्य कर कटौती का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अनुसार अन्य दस्तावेज मी जमा कर सकते हैं। फार्म 15जी / 15एच या उपरोक्त वर्णित अन्य दस्तावेज देने वाले शेयरघारकों के लिए पैन होना अनिवार्य है।

नॉन-रेजीडेंट शेवरधारकों के लिए कर वर्तमान में लागू आईटी अधिनियम की घारा 195 एवं अन्य लागू घाराओं के प्रावधानों के अनुसार काटा जाना है। काटा जाने वाला कर देव लामांश की राशि पर 20 प्रतिशत (प्लस लागू सरचार्ज एवं उपकर) या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार होगा। यद्मपि, आईटी अधिनियम की घारा 90 के अनुसार नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों के पास भारत और शेयरघारक के कर निवास वाले देश के बीच बहुपक्षीय लिखत ("एमएलआई") के साथ पठित दोहरे कर बचाव समझौते (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा उनके लिए अधिक लाम के शासित होने का विकल्प है। इस प्रयोजन के लिए, एमएलआई के साथ पठित डीटीएए के तहत लागों का फायदा उठाने के

लिए नॉन–रेजीडेंट शेयरघारक को निम्नलिखित प्रदान करना होगाः शेयरघारक द्वारा स्व-सत्यापित आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये पैन कार्ड की प्रति या आयकर नियम, 1962 के नियम 378सी के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार अन्य विवरण।

शेयरघारक द्वारा स्व-सत्यापित टैक्स रेजीडेंस के देश के राजस्व/कर प्राधिकरण से प्राप्त वित्त

लागू कर नियमों के अनुसार भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान न होने के बारे में शेयरधारक द्वारा

नॉन-रेजीडेंट शेयरघारक द्वारा लामार्थी स्वामी का स्व-घोषणापत्र

शेयरधारक द्वारा रव-सत्यापित लाग् कर कटौती का कम करने के लिए आईटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज

विदेशी संस्थागत निवेशकों / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मामले में, कर आईटी अधिनियम की धारा 196डी के अनुसार @20 प्रतिशत (प्लस लागू सरचार्ज एवं उपकर) काटा जाएगा। शेयरघारक जो कोई भी कर लाभ काटना चाहते हैं / उसके लिए हकदार हैं, वे कंपनी के पास

investors@nit.com पर अपने दस्तावेज भेज सकते हैं जो कि 26 जुलाई, 2021 तक या उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यह कंपनी द्वारा सत्यापन/जांच के अधीन होगा और 26 जुलाई, 2021 के बाद किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह सूचना एमसीए एवं सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की बोर्ड के आदेश से कृते एनआईआईटी लिमिटेड **EKTI./-**

दीपक बंसल

कंपनी समिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः ०५ जुलाई, २०२१

जानकारी एवं उनके हित में जारी की जा रही है।

### नेता ने केरल सरकार से ईंधन सब्सिडी देकर नागरिकों की मदद करने का भी अनुरोध किया। पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गए हैं। 'राजस्थान को नहीं

मिल रहे पर्याप्त मात्रा में टीके'

जयपुर, ५ जुलाई (भाषा)।

लगा दी जाएंगी।

www.readwhere.com

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को फिर कहा कि कोरोना विषाणु से बचाव के वास्ते टीकाकरणक के लिए राजस्थान को केंद्र से पर्याप्त टीके नहीं मिल रहे हैं। गहलोत ने केंद्र से राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध करवाने की मांग की है। गहलोत ने ट्वीट किया, ''राज्य में आज टीके की लगभग 70 हजार खुराक बची हैं जो आज

੧ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है (सरफेसी ऐक्ट) 2002 के दफा 13 (2) के अन्तर्गत सूचना

सैक्टर-12बी, प्लॉट नं. 45, द्वारका, नई दिल्ली-110075

प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बँक

अघोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नांकित कर्जदारों ने **पंजाब एण्ड सिंघ बैंक** से ऋण सूविधा ली है, अतः कर्जदार अपने ऋण की का ब्याज 🖊 ईएमआई, बैंक को चुकाने में असफल होने के कारण यह सुचना जारी कि जा रही है एवं आर<sup>े</sup> बी. आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके खाते को देय बँक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है। कर्जदारों द्वारा निम्नलिखित अवल सम्पत्तियों को सुरक्षित आस्तियों के रूप में बैंक में बंधक रखा है जिसका विवरण नीचे दर्शायाँ गया है। कर्जदार द्वारा ऋण और बकाया राशि का विवरण भी नीचे दर्शायीं गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर्जदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी बैंक का प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार ने

द्वितीय मकान का हिस्सा

दिनांक : 03.07.2021, स्थानः दिल्ली

निम्नलिखित कर्जदारों के खिलाफ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदारो द्वारा उनके आगे दर्शायी गई बकाया राशि का भूगतान इस सूचना के 60 दिनों के अन्दर न किया गया तो प्राधिकृत अधिकारी सरफासी एक्ट, 2002 की धारा 13 के उपनियम (4) के अंतर्गत प्राप्त सभी या किसी भी प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए निम्नांकित

सम्पत्तियों को कब्जे में लेते हुए बिक्री कर सकते है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा निम्नलिखत संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है ।

बंधककर्ता सम्पत्ति का मांग सूचना की तारीख कर्जदार/गारंटर का नाम बकाया राशि श्रीमती गंगोत्री पत्नी श्याम नंदन सिंह, निवासी: फ्लैट नं. 228 फ्लैट नं. 228, तृतीय तल, पॉकेट नं. 06-04-2021 7, नासीरपुर, द्वारका, दिल्ली — 110045 में स्थित, चौहदी : उत्तर में — तृतीय तल, पॉकेट नं. ७ नासीरपुर, द्वारका दिल्ली-110045, पताः ₹. 10,25,723.77 आरजेड-619 / ए, महावीर एन्क्लेव, फ्राइडे मार्केंट के पास, उत्तम और ब्याज की गणना सीढ़ियां, पश्चिम में – खुला और नगर वैस्ट दिल्ली-110059

228 तृतीय तल, पॉकेट नं. 7 नासीरपुर, द्वारका दिल्ली-110045

2. श्री श्याम नंदन सिंह पुत्र नवल किशोर सिंह, निवासी: फ्लैट नं. प्रवेश, पुरब में - खुला, दक्षिण में -एनपीए की तारीख: 31-03-2021 प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

दिनांक : 05-07-2021 स्थान : नई दिल्ली

बोर्ड की आज्ञानुसार

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट की प्रति। फार्म 10एफ के स्व-घोषणापत्र

COLUMBIA (TOGETHER, THE "UNITED STATES") (EXCEPT TO "QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS", AS DEFINED HEREIN) OR ANY "OTHER JURISDICTIONS" (AS DEFINED HEREIN). FOR FURTHER INFORMATION, SEE "IMPORTANT INFORMATION" HEREIN. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AND INTO THE UNITED STATES OR OTHER JURISDICTIONS (AS DEFINED BELOW), SEE "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.



MINISTRY OF STEEL

(Government of India)

Subject: Offer for Sale of equity shares of face value of ₹ 1 each ("Equity Shares") of NMDC Limited (the "Company"), by its Promoter, the President of India acting through Ministry of Steel, Government of India (the "Seller"), through the stock exchange mechanism. I am directed to refer to Clause 5(b) of the circular number CIR/MRD/DP/18/2012 dated July 18, 2012 notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") pertaining to comprehensive guidelines on offer for sale of shares by promoters through the stock exchange mechanism, as amended by circular number CIR/MRD/DP/04/2013 dated January 25; 2013, circular number CIR/MRD/DP/17/2013 dated May 30; 2013, circular number CIR/MRD/DP/24/2014 dated December 1, 2014, circular number CIR/MRD/DP/12/2015 dated June 26, 2015, circular number CIR/MRD/DP/24/2014 dated December 1, 2014, circular number CIR/MRD/DP/12/2015 dated June 26, 2015, circular number CIR/MRD/DP/24/2014 dated December 1, 2014, circular number CIR/MRD/DP/12/2015 dated June 26, 2015, circular number CIR/MRD/DP/24/2014 dated December 1, 2014, circular number CIR/MRD/DP/12/2015 dated June 26, 2015, circular number CIR/MRD/DP/24/2014 dated December 1, 2014, circular number CIR/MRD/DP/12/2015 dated June 26, 2015, circular number CIR/MRD/DP/12/2015 dated June 26, 2015, circular number CIR/MRD/DP/24/2014 dated December 1, 2014, circular number CIR/MRD/DP/12/2015 dated June 26, 2015, circular number CIR/MRD/DP CIR/MRD/DP/36/2016 dated February 15, 2016, circular number CIR/MRD/DP/65/2017 dated June 27, 2017 and circular number SEBI/HO/MRD/DP/65/2016 dated December 28, 2018 ("SEBI OFS Circular") read with Section 21 of Chapter 1 of the Master Circular for Stock Exchange and Clearing

Corporation - circular no. SEBI/HO/MRD/DP/CIR/P/117dated October 25, 2019 issued by SEBI, (together with SEBI OFS Circulars\*), read with (a) "Revised Operational Guidelines for Offer for Sale (OFS) Segment" issued by BSE by way of its notice bearing no. 20200701-27 and dated July 01, 2020 and, to the extent applicable, the previous notices issued by BSE in this regard; and (b) "Offer for Sale-Introduction of Interoperability" issued by NSE by way of its circular bearing no. 51/2020 and dated June 30, 2020 and, to the extent applicable, the previous circulars issued by NSE in this regard/together with the This advertisement is being issued by the Seller in pursuance of Clause 4 of the SEBI OFS Circular. The President of India, acting through and represented by the Ministry of Steel, Government of India, is the promoter (the "Promoter"). The Promoter (the "Promoter"). Equity Shares of the Company, (representing 4% of the total issued and paid up equity share capital of the Company) ("Base Offer Size"), on July 6, 2021, ("T+1 day") (for non-Retail Investors and for non-Retail Investors who choose to carry forward their unallotted bids with an option to additionally self 10,22,78,144 Equity Shares (representing 3,49% of the total issued and paid up equity share capital of the Company) (the "Oversubscription Option") through a separate, designated window of the BSE Limited (the "BSE") and the National Stock Exchange of India Limited

("NSE", and together with the BSE, the "Stock Exchanges"), collectively representing 7.49% of the total issued and paid up equity share capital of the Company (held in dematerialized form in one or more demat accounts with the relevant depository participant), in accordance with the OFS Guidelines (such offer for sale hereinafter referred to as the "Offer"). In the event that the Oversubscription Option is exercised, the Equity Shares forming part of the Base Offer Size and the Oversubscription Option will collectively, hereinafter be referred to as "Offer Shares" while in the event that such Oversubscription Option is not exercised, the Equity Shares forming part of the Base Offer Size will be referred to as "Offer Shares" Such number of Equity Shares as would be equivalent to up to 5% of the Offer Shares may be offered to eligible employees of the Company subsequent to completion of the Offer, in accordance with the terms and conditions provided in the OFS Guidelines, subject to approval from the competent authority (the

"Employee Offer"). The eligible employees may apply for Equity Shares amounting up to ₹ 500,000. The Offer shall be undertaken exclusively through the Seller's Brokers named below on a separate window provided by the Stock Exchanges for this purpose.

The details of the Offer, in accordance with the requirements of Clause 5(b) of the SEBI OFS Circular, are set forth below. Other important information", and the information included therein constitutes an integral part of the terms and conditions of the Offer. Bidders/ prospective purchasers, as well as their brokers, are required to read the information included in this Notice in its entirety along with the OFS Guidelines, before participating in the Offer.

Sr No.	Details required to be mentioned in the Notice	Particulars of the Offer
1	Name of the Seller (Promoter / Promoter Group)	The President of India, acting through and represented by Ministry of Steel, Government of India
2	Name of the company whose shares are proposed	Name:NMDC Limited
3	to be sold and ISIN  Name of the stock exchange where orders shall be	ISIN: INE584A01023 BSE and NSE
	placed	DOC BITO NO.C
4	Name of the designated stock exchange	NSE
5	Name of the designated clearing corporation	NSE Clearing Limited
6	Dates and time of the opening and closing of the Offer	The Offer shall take place on a separate window of the Stock Exchanges on July 6, 2021("T" day) and July 7, 2021 ("T+1" day), from 9:15 a.m. to 3:30 p.m. (Indian Standard Time) on both days, as per details given below.  For non-Retail Investors shall be allowed to place their bids on T day, i.e., July 6, 2021. While placing their bids, non-Retail Investors may indicate their willingness to carry forward their un-allocated bids to T+1 day for allocation to them in the unsubscribed portion of Retail Category (defined below).  The Offer shall take place during trading hours on a separate window of the Stock Exchanges on T day, i.e., July 6, 2021 commencing at 9:15 a.m. and shall close at 3:30 p.m. Indian Standard Time on the same date.  Those non-Retail Investors who have placed their bids on T day and have chosen to carry forward their bids to T+1 day, shall be allowed to carry forward and also revise their bids on T+1 day as per the OFS Guidelines.  For Retail Investors (defined below) and for non-Retail Investors who choose to carry forward their un-allotted bids to T+1 Day  The Offer shall continue to take place during trading hours on a separate window of the Stock Exchanges on T+1 day, i.e., July 7, 2021 commencing at 9:15 a.m. and shall close on the same date at 3:30 p.m. Indian Standard Time on the same date.  Only Retail Investors (defined below) shall be allowed to place their bids on T+1 day, i.e., July 7, 2021. Further, those non-Retail investors who have placed their bids on T day and have chosen to carry forward their unallotted bids to T+1 day, shall be allowed to revise their bids on T+1 day as per the OFS Guidelines.
7	Allocation methodology	The allocation shall be at or above the Floor Price (defined below) on a price priority basis at multiple clearing prices, in accordance with the OFS Guidelines.
8 9	Total number of Equity Shares being offered in the Offer Maximum number of shares the Seller may choose to sell over and above made at point 8 above Name of the broker(s) on behalf of the Seller (the "Seller's Broker")	Indicative price for the non-Retail Category shall be displayed segarately. There shall be no indicative price for the Retail Category.  No single bidder, other than mutual funds registered with the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 as amended ("insurance Companies"), shall be allocated more than 25% of the Offer Shares.  Non-Retail Category Allocation Methodology  The non-Retail Investors shall have an option to carry forward their un-allotted bids from The Investors as hall have an option to carry forward their un-allotted bids. Further, such non-Retail investors as hall have an option to carry forward their un-allotted bids. Further, such non-Retail investors as hall have an option to carry forward their un-allotted bids. Further, such non-Retail investors as hall have an option to carry forward their un-allotted bids. Further, such non-Retail investors as hall be reserved to the cut-off Price or higher as per the bids.  Aminimum of 25% of the Offer Shares shall be reserved for Mutual Funds and insurance Companies, subject to receipt of varied bids at or above the Floor Price (defined below). In the event of any under subscription by Mutual Funds and insurance Companies, the unsubscribed portion shall be available to other bidders in the non-Retail Category shall be done from the Offer Shares forming part of the Base Offer Sizes and the Oversubscription of potion. Further, in the event the Oversubscription Option is exercised, the Equity Shares forming part of the Base Offer Sizes and the Oversubscription Option on Season of States and the Oversubscription Option on States and States an
		SBICAP Securities Limited (Broker Code: NSE – 10529/ BSE – 95) will be acting as the Settlement Broker on behalf of the Seller's Brokers.
-	Floor Price	The floor price for the Offer shall be ₹ 165 (Rupees One Hundred Sixty FiveOnly) per Equity Share ("Floor Price"). The Stock Exchanges are required to ensure that the Floor Price is immediately informed to the market.
12	Conditions for withdrawal of the Offer	The Seller reserves the right to not proceed with the Offer at any time prior to the time of opening of the Offer on T Day. In such a case, there shall be a cooling off period of 10 trading days from the date of withdrawal before another offer for sale through stock exchange mechanism is made. The Stock Exchanges shall suitably disseminate details of such withdrawal.
13	Conditions for cancellation of the Offer	In the event the aggregate number of orders received from non-Retail Investors in the Offer at or above the Floor Price on T day is not sufficient, the Seller reserves the right to cancel the Offer, post bidding, in full (for both non-Retail Investors and Retail Investors) and not proceed with the Offer on T+1 day.  Cancellation request for bidding from the Seller will be accepted up to 5:00 p.m. on T day by the Stock Exchanges.  In case of any default in settlement obligations, the Seller reserves the right to either conclude the Offer, to the extent of valid bids received, or cancel the Offer in full. In such cases, the decision to either conclude or cancel the Offer shall be at the sole discretion of the Seller.
14	Conditions for participating in the Offer	1. Non-institutional investors bidding in the non-Retail Category shall deposit 100% of the bid value in cash up-front with the clearing corporation at the time of placing bids for the Offer.  2. Institutional investors have an option of placing bids without day upfront payment. In case of institutional investors who place bids with 100% of the bid value depositing 100% of the bid value upfront, custodian confirmation shall be as per the existing rules for secondary market transactions and the OFS Guidelines.  3. In respect of bids in the Retail Category, margin for bids placed at the Cut-Off Price, shall be at the Floor Price and for price bids at the value of the bid. Clearing corporation shall collect margin to the extent of 100% of order value in cash or cash equivalents at the time of placing bids. Pay-in and pay-out for bids by Retail Investors shall be a three place as per normal secondary market transactions and applicable laws including OFS Guidelines.  4. Retail investors may enter a price bid or opt for bidding at the Cut-Off Price.  5. The funds collected shall neither be utilized against any other obligation of the trading member nor co-mingled with other segments.  6. Individual investors shall have the option to bid in the Retail Category and for the non-Retail Category, who were in the cumulative bid value by an individual investor across the Retail Category and the non-Retail Category was price bids in the Retail Category will become ineligible. Further, if the cumulative bid value by an individual investor across the Retail Category will become ineligible. Further, if the cumulative bid value by an individual investor across the Retail Category and the non-Retail Category will become ineligible. Further, if the cumulative bid value by an individual investor across the Retail Category and the non-Retail Category will become ineligible. Further, if the cumulative bid value by an individual investor across the Retail Category will become ineligible. Further, if the cumulative bid value by an ind

## IMPORTANT INFORMATION

Date: 5 July, 2021

The Offer is directed personally to each prospective bidder (including individuals, funds or otherwise) registered with the broker of the Stock Exchanges who makes a bid (each a "Bidder") and neither the Offer nor this Advertisement constitutes an offer to sell or invitation or solicitation of an offer to buy, to the public, or to any other person or class of persons requiring any prospectus or offer document to be issued, submitted to or filed with any regulatory authority or to any other person or class of persons within or outside India. The Offer is being made in reliance on the OFS Guidelines. There will be no "public offer" of the Offer Shares in India under the applicable laws in India including the Companies Act, 2013, and the rules and clarifications issued thereunder, as amended from time to time (the "Companies Act") or in any other jurisdiction.

Settlement shall take place on a trade for trade basis. For bids received from non-Retail Category on T day, being non-institutional investors and institutional investors who place orders with 100% of the order value deposited upfront, settlement

shall take place on T+1 Day, in accordance with the OFS Guidelines, In the case of institutional investors who place bids on T Day without depositing 100% of the order value upfront, settlement shall be as per the existing rules for secondary

For the bids received on T+1 Day from non-Retail Investors who choose to carry forward their un-allotted bids to T+1 day with 100% of the order value deposited upfront, the settlement shall take place on T+2 Day.

For the bids received on T+1 Day from the non-Retail Investors who choose to carry forward their un-allotted bids to T+1 day without depositing 100% of the order value upfront, the settlement shall take place on T+3 day.

Accordingly, no documents have been or will be prepared, registered or submitted for approval as "prospectus" or an offer document with the Registrar of Companies or any other statutory/regulatory/listing authority in India or abroad under the applicable laws in India including the Companies Act, the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended and no such document will be circulated or distributed to any person in any jurisdiction, including in India. Each Bidder shall be deemed to acknowledge and agree that any buy order or bid shall be made solely on the basis of publicly available information available with SEBI or the Company's website or otherwise in the public domain, together with the information contained in

The Offer is subject to further terms set forth in the contract note to be provided to the successful Bidders. This Advertisement is for information purposes only and is neither an offer nor invitation to buy or sell nor a solicitation of an offer to buy or sell any securities, in in any jurisdiction (collectively, "Other Jurisdictions") in which such offer, solicitation or sale is or may be unlawful whether

For the bids received on T+1 Day from the Retail Category, the settlement shall take place on T+3 Day.

prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction or otherwise. This Advertisement and the information contained herein are not for publication or distribution, directly or indirectly, in or to persons in any Other Jurisdictions unless permitted pursuant to an exemption under the relevant local law/s or regulation/s in any such jurisdiction. Prospective purchasers should seek appropriate legal advice prior to participating in the Offer. The Offer Shares have not been and will not be registered under any securities law of any Other Jurisdictions.

The Offer Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act of 1933, as amended (t Seller may be relying on the exemption from the exemption from the provisions of Section 5 of the Securities Act, The purchasers of Offer Shares must be made in accordance with the registration requirements of the Securities Act, or otherwise pursuant to an available exemption from such No determination has been made as to whether the Company has been, is, or will become a passive foreign investment company ("PFIC") within the meaning of Section 1297 of the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended, for U.S. federal income tax purposes. No analysis has been undertaken to

determine if the Company is a PFIC, and if the Company has been, is, or will be treated as a PFIC in any taxable year U.S. taxpayers that hold the Offer Shares (directly and, in certain cases, indirectly) may be subject to significant adverse tax consequences. The PFIC rules are complex and there could be adverse tax consequences for a U.S. holder of the Sale Shares if the Company were determined to be a PFIC. Prospective purchasers should consult their own tax advisors regarding the U.S. federal, state and local tax implications to them of acquiring the Offer Shares. By submitting a bid in connection with the Offer or receiving the Offer Shares, Bidders will be deemed to have acknowledged that none of the Seller's Brokers, the Seller, the Company nor any of their respective, agents or affiliates, have provided the Bidders with any tax advice or otherwise made any representations regarding the tax consequences of purchase, ownership and disposal of the Offer Shares, and that the Bidders have obtained their own independent tax advice and evaluated the tax consequences in relation to the Offer Shares. By submitting a bid in connection with the Offer, each broker, except for the Seller's Brokers, will be deemed to have represented that it is located outside the United States and that none of it, its affiliates (as defined in Rule 405 under the Securities Act) or any person acting on its or their behalf has (a) engaged or will engage in any "directed selling efforts" (as defined in Regulation S) in connection with the offer or sale of Offer Shares, (b) engaged or will engage in any form of "general solicitation" or "general solicitation" or "general solicitation" or under the Securities Act) or (c) offered or will offer and sell the Offer Shares except outside the United States in reliance upon Regulation S or within the United States to persons reasonably believed to be QIBs in transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act.

By submitting a bid in connection with the Offer or receiving any Offer Shares, each Bidder will be deemed to have (a) read and complied with the terms and conditions set out in this Notice, and (c) made the representations, warranties, agreements and acknowledgements set out in (i) or (ii) immediately below, as appropriate (i) Persons Outside the United States

It understands that the Offer Shares have not been and will not be registered under the Securities Act or under the securities and are being offered and sold to it in a transaction that does not require registration under the Securities Act; It is empowered, authorized and qualified to purchase the Offer Shares;

(i) It was outside the United States (within the meaning of Regulation S) at the time the offer Shares was made to it and it was outside the United States when its purchase order for the Offer Shares was originated and (ii) if it is a broker-dealer outside the United States acting on behalf of its customers, each of its customers has confirmed to it that such customer was outside the United States at the time the offer of the Offer Shares was made to it and such customer's buy order for the Offer Shares was originated;
 If it is a person in a member state of the European Economic Area ("EEA"), it represents and agrees that it is a "qualified investor");

 It also represents and agrees that any Offer Shares that may be acquired by it in any offer of the Offer Shares will not be acquired on behalf of persons in other member states (where equivalent legislation exists) for whom it has authority to make decisions on a wholly discretionary basis, nor have the Offer Shares been acquired with a view to their offer or resale in the EEA to persons where this would result in a requirement for publication by the Company or Broker of a prospect

If it is in the United Kingdom it is a legal entity which is a qualified investor as defined under Article 2 of the UK Prospectus Regulation;

It did not submit a bid for and will not be acquiring the Offer Shares as a result of any "directed selling efforts" (as defined in Regulation S);

Except for the Seller's Brokers, no broker may solicit bids for the Offer Shares or accept orders for bids for the Offer Shares from persons in the United States.

 It is buying the Offer Shares for investment purposes and not with a view to the distribution thereof. If in the future it decides to offer, resell; pledge or otherwise transfer any of the Offer Shares, it agrees that it will not offer, sell; pledge or otherwise transfer the Offer Shares. or Rule 904 of Regulation S or pursuant to another available exemption from the registration requirements under the Securities Act and in accordance with all applicable securities laws of the United States and any other jurisdiction, including India;

It understands that no representation is made by the Seller or the Seller's Brokers as to the availability of any such exemption at the time of any such offer, sale, pledge or transfer; It is not an affiliate (as defined in Rule 405 under the Securities Act) of the Company or a person acting on behalf of an affiliate of the Company;

It is not, and is not acting on behalf of a "Benefit Plan Investor" as defined in the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended; Where it is submitting a bid as fiduciary or agent for one or more investor or managed accounts, it represents and warrants that it was authorised in writing by each such managed account and to make (and it hereby makes) the representations, warranties,

agreements and acknowledgments herein for and on behalf of each such account, reading the reference to 'if' to include such accounts; The placing of orders for the purchase of the Offer Shares and resultant purchase on successful allocation is and will be lawful under the laws of the iurisdictions in which it is resident, and in which the sale and purchase of the Offer Shares is consummated.

including under all applicable Indian laws, regulations and guidelines, including the OFS Guidelines; It will not hold or seek to hold the Seller or the Seller

incurred in connection with transactions entered into by the brokers acting on its behalf in connection with the purchase of the Offer Shares; It agrees to indemnify and hold the Seller and expenses (including legal fees and expenses) arising out of or in connection with any breach of these representations, warranties or agreements. It agrees that the indemnity set forth in this paragraph shall survive the resale of the Offer Shares.

It understands that by its purchase or holding of the Offer Shares, it is assuming and is capable of bearing the risk of loss that may occur with respect to the Offer Shares, including the possibility that it may lose all or a substantial portion of its investment in the Offer Shares, and it will not look to Seller's Brokers for all or part of any such loss or losses it may suffer; and

It acknowledges that the Seller and the Seller's Brokers and their respective affiliates, and others will rely upon the truth and acknowledgements and acknowledgements and acknowledgements and acknowledgements and acknowledgements and acknowledgements. no longer accurate it will promptly notify the Seller.

Any resale or other transfer, or attempted resale or other transfer, of the Offer Shares made other than in compliance with the above-mentioned restrictions shall not be recognized by the Company. (iii) Persons in the United States It understands that the Offer Shares have not been and will not be registered under the Securities Act or under the Securities Act or under the securities and that the offer Shares to it is being made pursuant to an available exemption from the registration requirements of the Securities Act.

and in accordance with any applicable state securities laws: It is empowered, authorized and qualified to purchase the Offer Shares: (i) It is a QIB and is purchasing Offer Shares for its own account or for the account of another QIB and (ii) is aware that the Offer Shares are being sold to it pursuant to an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act;

It did not submit a bid for and will not be acquiring the Offer Shares as a result of any general solicitation or general advertising (within the meaning of Rule 502© under the Securities Act). It represents and warrants that it is buying the Offer Shares for investment purposes and not with a view to the distribution thereof. If in the future it decides to offer, sell, pledge or otherwise transfer such Offer Shares (a) in the United

market transactions (i.e., on T+2 day).

States (i) to a person who the seller reasonably believes is a QIB in a transaction meeting the requirements of Rule 144A, (ii) pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act, or (iv) pursuant to an effective registration statement under the Securities Act, or (b) outside the United States in an offshore transaction complying with Rule 903 or Rule 904 of Regulation S, as applicable, in each case in accordance with all applicable securities laws of the states of the United States and any other jurisdiction, including India. Except for sales made in accordance with Rule 903 or 904 of Regulation S, it will, and each subsequent purchaser from it of the resale restrictions referred to in (a) above;

It is not an affiliate (as defined in Rule 405 under the Securities Act) of the Company or a person acting on behalf of an affiliate of the Company; It represents that prior to acquiring the Offer Shares, it has all the information relating to the Company and the Offer Shares which it believes is necessary for the purpose of making its investment decision; It understands that Offer Shares purchased pursuant to an available exemption under the Securities Act and it agrees that for so long as they remain restricted securities, it shall not deposit such Offer Shares into any unrestricted

depository facility established or maintained by any depository bank:

The placing of orders for the purchase of the Offer Shares and resultant purchase of the Offer Shares is consummated, including under all applicable Indian laws, regulations and guidelines, including the OFS Guidelines;

Where it is submitting a bid as fiduciary or agent for one or more investor or managed accounts, it represents and warrants that it was authorised in writing by each such managed account to purchase the Offer Shares for each managed account and to make (and it hereby makes) the representations, warranties, agreements and acknowledgments herein for and on behalf of each such account, reading the reference to 'if' to include such accounts; It will not hold or seek to hold the Seller or the Offer or otherwise responsible or liable in any manner whatsoever in respect of any losses.

incurred in connection with transactions entered into by the brokers acting on its behalf in connection with the purchase of the Offer Shares; It understands that the Offer Shares may also not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred to a "Benefit Plan Investor" as defined in the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended ("ERISA") or anyone acting on behalf of such a person;

It is not a "Benefit Plan Investor" as defined in ERISA or a person acting on behalf of such a person; The purchase of the Offer Shares by it and the consummation of the transactions contemplated does not and will not constitute or result in a prohibited transaction under ERISA, Section 4975 of the Code or any substantially similar law for which no exemption is available; It agrees to indemnify and hold the Seller and the seller's Brokers harmless from any and all costs, claims, liabilities and expenses (including legal fees and expenses) arising out of or in connection with any breach of these representations, warranties or agreements. It agrees that the indemnity set forth in this

paragraph shall survive the resale of the Offer Shares: Where it is submitting a bid as fiduciary or agent for one or more investor accounts, it has sole investment discretion with respect to each such account and it has full power to make the representations, warranties, agreements and acknowledgements herein; It understands that by its purchase or holding of the Offer Shares, including the possibility that it may lose all or a substantial portion of its investment in the Offer Shares, and it will not look to Seller's Brokers for all or

part of any such loss or losses it may suffer; and It acknowledges that the Seller and the Seller and the Seller's Brokers and their respective affiliates, and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations, warranties, agreements and acknowledgements is

no longer accurate it will promotly notify the Seller. Any resale or other transfer, or attempted resale or other transfer, of the Offer Shares made other than in compliance with the above-mentioned restrictions shall not be recognized by the Company. Thanking You. This Notice is not for publication or distribution, in whole or in part, in the United States, except that the Seller's Brokers may send copies of this Notice to persons in the United States who they reasonably believe to be QIBs.

Yours faithfully. On behalf of the President of India,

Ministry of Steel, Government of India Authorised Signatory

## 84-yr-old activist Stan Swamy dies in hospital waiting for bail

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, July 5

PRIEST-ACTIVIST STAN Swamy, arrested under an anti-terror law in the Elgar Parishad case, died at a Mumbai hospital on Monday in the middle of his fight for bail on health grounds.

The 84-year-old Jesuit priest — possibly the oldest person to be accused of terrorism in India, as per his lawyer — had been on a ventilator since Sunday after his health

worsened rapidly. Dr Ian D'souza, director of the Bandra-based private Holy Family Hospital, where Swamy was undergoing treatment, and the tribal rights activist's lawyer Mihir Desai informed a bench of the Bombay High Court of his death following cardiac arrest.

The bench, comprising Justices S S Shinde and N J Jamadar, expressed shock over the news and said it was at a loss of words and hoped Swamy's soul would rest in peace. Swamy the oldest among the 16 accused persons arrested in the Elgar Parishad case and, possibly the oldest in India be charged under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), the lawyer said.

Those arrested include some of India's mostrespected scholars, lawyers, academicians, cultural activists, and an ageing radical poet, who then contracted coronavirus in prison.

Condolences poured in for the tribal rights activist, with many bemoaning his demise.

The Jesuit Provincial of India expressed grief over Swamy's death. In a statement, it said the priest had worked all his life for the "Adivasis, Dalits, and marginalised communities so that the poor may have life with dignity and honour".

#### NIIT LIMITED NIIT

Regd. Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi 110019 CIN: L74899DL1981PLC015865 Phone: 91 (11) 41675000; Fax: 91 (11) 41407120 Website: http://www.niit.com; E-mail: investors@niit.com

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING The 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of NIIT Limited ("the Company" will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Mode (OAVM) on Thursday,

August 5, 2021 at 03:30 P.M.IST to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The AGM shall be in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI" (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India (MCA) and SEBI circular dated May 12 2020 and January 15, 2021 allowing the companies to hold the AGM through VC/OAVM without the physical presence of members at a common venue. Members participating through the VC / OAV facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year ended on March 31, 2021, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached then shall be sent to the Members of the Company in electronic mode whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents shall also be available on the Company's website at www.niit.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com

The Company shall be providing facility to its members to cast their votes remotely, using

the electronic voting system ("remote e-voting"), for participation in the AGM through VC /OAVM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depositories Limited ("NSDL"). The procedure/instruction of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.niit.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM. Members whose email addresses are not registered with the Company / Alankit Assignments Limited / Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM. Members of the Company under the category of Institutional Shareholders are encouraged to attend and participate in the AGM through VC/OAVM and vote thereat. The Members participating in the AGM through VC/OAVM facility, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM if not voted through remote e-voting.

The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, July 29, 2021, shall be entitled to cast vote by remote e-voting or attend the meeting through VC/OAVM and cast vote at AGM. The remote e-voting period shall commence on Monday, August 2, 2021 (9:00 A.M.) and end on Wednesday, August 4, 2021 (5:00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member remote e-voting, it shall not be permitted to change it subsequently. In case of voting by remote e-voting and also e-voting at the AGM, vote casted through remote e-voting will be considered final and e-voting at the AGM will not be considered.

Mr. Nityanand Singh, Company Secretary (Membership No. FCS 2668) from M/s. Nityanand Singh & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The instructions for remote e-voting and attending the AGM through VC/OAVM will be

provided in the Notice of the AGM. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may

register themselves by sending request mentioning their name, demat account / folio number, email id, mobile number through their registered email to the Company at investors@niit.com. The Speaker Registration will be open till Thursday, July 29, 2021. Only person who shall be member as on the cut-off date shall be entitled to register and

to the Company at least seven days in advance of AGM at investors@niit.com. The same will be replied by the Company suitably.

Members having any query or seeking any information are requested to write /send email

## Manner for registering/ updation of email address:

Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at investors@niit.com along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the shareholders, self-attested copy of PAN/ anyother identity and

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with their Depository Participants.

#### Information on Dividend/ Tax Deduction at source (TDS) / withholding tax The Board of Directors at their meeting held on June 4, 2021 has recommended a dividend

of Rs. 2.50/- per equity share. The dividend, once approved at the AGM, will be paid to those members whose names will appear on the Register of Members or in records of the Depositories as beneficial owners of the shares as on Tuesday, July 20, 2021. The final dividend, subject to approval of members at AGM, will be paid (after deduction of tax at source as applicable) within 30 days from the date of the AGM electronically to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to their registered addresses. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their complete bank details with their depositories (where shares are held in demat mode) and update with Company's Registrar and Transfer Agent - Alankit Assignments Limited (where shares are held in physical form) by providing signed request letter with folio no., self-attested cancelled cheque leaf and copy of PAN to receive the dividend directly into their bank account.

Shareholders may note that the Income Tax Act, 1961, ('the IT Act') as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a company on or after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of final dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, shareholders are requested to submit relevant documents, as specified hereinbelow, in accordance with the provisions ofthe IT Act.

For Resident Shareholders, taxes shall be deducted at source under Section 194 of the Act, as follows

Shareholders having valid Permanent 10% or as notified by the Government of India Accounting Number (PAN) Shareholders not having PAN/ valid PAN

20% or as notified by the Government of India

However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident individual shareholders, f the total dividend to be received by them during Financial Year 2021-22 does not exceed Rs. 5,000 and also in cases where shareholders provide Form 15G/Form 15H (Form 15H is applicable for resident individual shareholders aged 60 years or more) subject to conditions specified in the IT Act. Resident shareholders may also submit any other document as prescribed under the IT Act to claim a lower/Nil withholding of tax. PAN is mandatory for shareholders providing Form. 15G/15H or any other document as mentioned above.

For Non-resident Shareholders, taxes are required to be withheld in accordance with the provisions of Section 195 and other applicable sections of the IT Act, at the rates inforce. The withholding tax shall be at the rate of 20% (plus applicable surcharge and cess) or as notified by the Government of India on the amount of dividend payable. However, as per Section 90 of the IT Act, non-resident shareholders have the option to be governed by the provisions of the Double Tax Avoidance Agreement (DTAA) read with Multilateral Instrument ("MLI") between India and the country of tax residence of the shareholder, i they are more beneficial to them. For this purpose, i.e. to avail the benefits under the DTAA

Copy of PAN card allotted by the Indian Income Tax Authorities duly attested by the shareholder or details as prescribed under rule 378C of Income Tax Rule, 1962.

Copy of Tax Residency Certificate for the FY 2021-22 obtained from the revenue/tax

authorities of the country of tax residence, duly attested by the shareholder.

Place: New Delhi

Self-declaration by the shareholder of having no Permanent Establishment in India in accordance with the applicable Tax Treaty.

Self-declaration of beneficial ownership by the non-resident shareholder. Any other documents as prescribed under the IT Act for lower withholding of taxes if

applicable, duly attested by the shareholder. n case of Foreign Institutional Investors/Foreign Portfolio Investors, tax will be deducted

under Section 196D of the IT Act @ 20% (plus applicable surcharge and cess). The shareholders desirous/entitled to any tax benefit may send their documents to the

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

> Deepak Bansal Company Secretary

Name:Smt. Rasika Chaube Designation: Additional Secretary

Date: July 5, 2021 New Delhi

read with MLI, non-resident shareholders will have to provide the following:

Company at investors@niit.com which must reach on/before July 26, 2021. The same shall be subject to the verification/satisfaction of the Company and no communication shall be accepted after July 26, 2021.

By Order of the Board For NIIT LIMITED